

CLASS : 10th (Secondary)

Code No. 5511

Series : Sec. April/2021

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SET : C

गृह विज्ञान

HOME SCIENCE

भाग - II

PART - II

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Questions)

(Academic/Open)

[हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम]

[Hindi and English Medium]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

-
- कृपया जाँच कर लें कि **भाग-II** के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **8** तथा प्रश्न **30** हैं।

*Please make sure that the printed pages in this question paper of **Part-II** are **8** in number and it contains **30** questions.*

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the question, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***

सामान्य निर्देश :

General Instructions :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

All questions are compulsory.

5511/(Set : C)/ II

P. T. O.

(ii) **सही** उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

Write **correct** answer in your answer-book.

नोट : निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **एक** शब्द में दीजिए :

Answer the following questions in **one** word each :

1. जेवेल पानी किसे कहते हैं ? 1
What is known as Jewel Water ?
2. दर्जी से वस्त्र सिलवाने की **एक** हानि बताइये। 1
Tell **one** disadvantage to stitch clothes from tailor.
3. विटामिन 'सी' की मात्रा किसमें अधिक पाई जाती है ? 1
Which item has maximum amount of Vitamin 'C' ?
4. सब्जियों में कौन-सा पोषक तत्व कम पाया जाता है ? 1
Which nutrient is found less in vegetables ?
5. अण्डों का भण्डारण कहाँ करेंगे ? 1
Where we should keep Eggs ?
6. जन्म के समय बच्चे का औसत वजन कितना होता है ? 1
What is the average weight of an infant at the time of birth ?
7. **एक** पाशविक दाग का उदाहरण दें। 1
Write **one** example of Animal Stain.
8. स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या होता है ? 1
What is the temperature of a healthy human body ?

9. बच्चा कितनी आयु में वयस्क होता है ? 1
At which age child become adult ?

10. ऊन का तन्तु कैसा होता है ? 1

Write the type of Wool Filament.

नोट : निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के **सही** विकल्प चुनकर उत्तर-पुस्तिका में लिखिए :

Select the **correct** option of the following multiple choice questions and write in answer-book :

11. अस्थायी दाँतों की संख्या होती है : 1

- (A) 4 (B) 16
(C) 20 (D) 24

The number of temporary teeth are :

- (A) 4 (B) 16
(C) 20 (D) 24

12. छोटी दुकानों पर मिलने वाले वस्त्र होते हैं : 1

- (A) महँगे (B) सस्ते
(C) हल्के (D) भारी

Clothes purchased from small shops are :

- (A) Costly (B) Cheap
(C) Light (D) Heavy

13. लोहे का स्रोत है : 1

- (A) पालक (B) गुड़
(C) अण्डे का पीला भाग (D) ये सभी

(4)

5511/(Set : C)

Source of iron is :

- (A) Spinach
- (B) Jaggery
- (C) Yellow part of Egg
- (D) All of these

14. कारीगरी का अर्थ है :

1

- (A) नाप
- (B) कटाई
- (C) सिलाई
- (D) ये सभी

Workmanship mean :

- (A) Measurement
- (B) Cutting
- (C) Stitching
- (D) All of these

5511/(Set : C)/ II

15. पानी में घुलनशील नील है (कपड़े के लिए) :

1

- (A) इण्डिगो
- (B) अल्ट्रामैरीन
- (C) पर्शियन
- (D) ये सभी

Water-soluble blue is (for fabric) :

- (A) Indigo
- (B) Ultramarine
- (C) Persian
- (D) All of these

16. कपड़े में कड़ापन लाने के लिए प्रयोग करते हैं :

1

- (A) मैदा
- (B) गोंद
- (C) आलू
- (D) ये सभी

For starching the clothes, we use :

- (A) Maida
- (B) Gum
- (C) Potato
- (D) All of these

17. बच्चों के हड्डियों में मजबूती आती है :

1

- (A) कैल्सियम से (B) वसा से
(C) लोहा से (D) आयोडीन से

Bones of children get strong by :

- (A) Calcium (B) Fat
(C) Iron (D) Iodine

18. बुखार में किस प्रकार का भोजन **नहीं** लेना चाहिए ?

1

- (A) तरल तथा गर्म भोजन (B) तला हुआ भारी भोजन
(C) खिचड़ी, दलिया (D) दूध, चाय

Which of the following food should **not** be taken in fever ?

- (A) Liquid and hot food
(B) Fried and heavy food
(C) Khichadi, Daliya
(D) Milk, Tea

19. मिलावट का अर्थ है :

1

- (A) सस्ते और घटिया पदार्थ मिलाना
(B) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ मिलाना
(C) भोजन में से आवश्यक तत्वों को निकालना
(D) उपर्युक्त सभी

Adulteration mean :

- (A) To add cheap and low quality items
- (B) To add items which are harmful to health
- (C) To remove nutrients from food
- (D) All of the above

20. वृद्धि किसका एक हिस्सा है ?

1

- (A) विकास
- (B) व्यक्तित्व
- (C) सीखना
- (D) उपरोक्त सभी

Growth is a part of

- (A) Development
- (B) Personality
- (C) Learning
- (D) All of the above

नोट : निम्नलिखित प्रश्नों के खाली स्थान भरकर उत्तर-पुस्तिका में लिखिए :

Answer the following questions by filling the blanks and write in answer-book :

21. में रखकर सब्जी, दूध इत्यादि को खराब होने से बचाया जा सकता है।

1

Vegetables, Milk, etc. can be saved by keeping in

22. आई० सी० एम० आर० ने आहार समूह निर्धारित किए हैं।

1

..... food groups are recommended by ICMR.

23. दूध खाद्य पदार्थ है।

1

Milk is food item.

24. रात्रि का भोजन दोपहर के भोजन की तुलना में होना चाहिए। 1
Dinner should be as compare to Lunch.
25. माह का बच्चा सरल, सीधे शब्द जैसे काका, मामा आदि बोल सकता है। 1
..... month child can speak simple words like Kaka, Mama, etc.
26. विटामिन 'बी' की कमी से रोग होता है। 1
Vitamin 'B' deficiency occurs disease.
27. बड़ी आयु में रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। 1
Old people should wear colored clothes.
28. वसा का स्रोत है। 1
Fat is a source of
29. घास का दाग है। 1
Grass Stain is known as
30. 'ए' श्रेणी का प्रोटीन है। 1
'A' Grade Protein is

